



# केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

(मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन)

## CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

(An Autonomous Organisation under the Ministry of Human Resource Development, Govt. of India)



### प्रेस नोट

15.07.2020

### 10वीं कक्षा के परिणाम

सीबीएसई की कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षाएं 15.02.2020 से 20.03.2020 तक आयोजित होनी नियत हुई थी। तथापि, कोविड -19 महामारी के व्यापक फैलाव के कारण, 19 से 31 मार्च को नियत परीक्षाएं स्थगित करनी पड़ी। कोविड-19 के विश्वव्यापी फैलाव और स्थितियों के पुनः आकलन के उपरांत, यह निर्णय लिया गया था कि बोर्ड पूर्वोत्तर दिल्ली में कराए जाने वाली परीक्षाओं सहित इन परीक्षाओं को संचालित कराने की स्थिति में नहीं होगा।

अनिश्चितताओं और अप्रत्याशित स्थिति को देखते हुए, भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय ने 26.06.2020 को आदेश पारित किया था जहां कक्षा 10वीं के लिए निम्नलिखित मानदंडों पर परिणामों की गणना करने के लिए सीबीएसई की आकलन योजना अनुमोदित की गई:

#### आकलन योजना:

- ए) ऐसे विद्यार्थी, जिन्होंने अपनी सभी परीक्षाएं पूरी कर ली हैं, उनके परिणाम परीक्षाओं में उनके प्रदर्शन के आधार पर घोषित किए जाएंगे।
- बी) ऐसे विद्यार्थी जो 3 विषयों से अधिक में परीक्षा में शामिल हुए हैं, तीन सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन वाले विषयों में प्राप्त किए गए अंकों का औसत उन विषयों में दिया जाएगा जिनकी परीक्षाएं आयोजित नहीं की गई हैं।
- सी) ऐसे विद्यार्थी जो केवल 3 विषयों में परीक्षा में शामिल हुए हैं, दो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन वाले विषयों में प्राप्त किए गए अंकों का औसत उन विषयों में दिया जाएगा जिनकी परीक्षा आयोजित नहीं की गई है।

#### कम्पार्टमेंट परीक्षा का संचालन

सीबीएसई इन परीक्षाओं की अनुसूची/तिथियों की घोषणा आगे भारत सरकार से परामर्श के उपरांत करेगा।

#### “अनुत्तीर्ण” शब्द का “आवश्यक पुनरावृत्ति” से प्रतिस्थापन

सीबीएसई ने "अनुत्तीर्ण" शब्द को "आवश्यक पुनरावृत्ति" शब्द से बदलने का निर्णय किया है। इसलिए, घोषित परिणाम में "अनुत्तीर्ण" शब्द का उल्लेख विद्यार्थियों को जारी किए गए दस्तावेजों और वेबसाइट पर होस्ट किए गए परिणाम में नहीं किया जाएगा।



“शिक्षा केन्द्र”, 2, सामुदायिक केन्द्र, प्रीत विहार, दिल्ली-110092  
“SHIKSHA KENDRA” 2, COMMUNITY CENTRE, PREET VIHAR, DELHI-110092



Phone (off.) : 011-22509256-59, 22041807-08, Website: www.cbse.gov.in, www.cbse.nic.in



# केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

(मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन)

## CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

(An Autonomous Organisation under the Ministry of Human Resource Development, Govt. of India)



### डिजीलॉकर में प्रमाण पत्र

- विद्यार्थी की डिजिटल अंक तालिका, उत्तीर्णता और प्रवास प्रमाण पत्र, कौशल प्रमाण पत्र डिजीलॉकर में भी उपलब्ध हैं। विद्यार्थियों को डिजीलॉकर खाता के क्रेडेंशियल्स पहले ही सीबीएसई के साथ पंजीकृत उनके मोबाइल नंबर पर एसएमएस के माध्यम से भेजे गए हैं।
- Google Play (<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.digilocker.android>) या Apple ऐप स्टोर (<https://apps.apple.com/in/app/digilocker/id1320618078>) पर उपलब्ध डिजीलॉकर मोबाइल ऐप से भी प्रमाणपत्र डाउनलोड किए जा सकते हैं। लॉगिन करने के लिए, सीबीएसई पंजीकृत मोबाइल नंबर, ओटीपी का उपयोग करें और सुरक्षा पिन के रूप में अपने रोल नंबर के अंतिम 6 अंक दर्ज करें।

**पुनः जांच और पुनर्मूल्यांकन:** बोर्ड द्वारा इसकी विस्तृत रूपरेखा जल्द ही अधिसूचित की जाएगी।

**सीबीएसई परिणाम उपरांत टेली-परामर्श:** परिणाम उपरांत टेली-काउंसलिंग की सुविधा 13.07.2020 को सक्रिय की गई जो 27.07.2020 तक टॉल-फ्री नंबर 1800 11 8004 पर क्रियाशील रहेगी। विद्यार्थी और माता-पिता देश के किसी भी हिस्से से सभी दिवसों में सुबह 9.30 बजे से शाम 5.30 बजे तक यह टोल फ्री डायल कर सकते हैं या इसी नंबर पर आईवीआरएस पर अथवा सीबीएसई की वेबसाइट [www.cbse.nic.in](http://www.cbse.nic.in) पर पहले से रिकॉर्डेड उपयोगी टिप्स और अन्य जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं।

इस महामारी के कठिन समय में भी सभी हितधारकों और जनसामान्य को बोर्ड की सूचना त्वरित और निष्पक्ष रूप से और प्रमुखता के साथ निर्गत करने के लिए मीडिया को हार्दिक धन्यवाद।

\*\*\*\*\*



"शिक्षा केन्द्र", 2, सामुदायिक केन्द्र, प्रीत विहार, दिल्ली-110092  
"SHIKSHA KENDRA" 2, COMMUNITY CENTRE, PREET VIHAR, DELHI-110092



Phone (off.) : 011-22509256-59, 22041807-08, Website: [www.cbse.gov.in](http://www.cbse.gov.in), [www.cbse.nic.in](http://www.cbse.nic.in)